



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 419] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 17, 1979/आश्विन 25, 1901  
No. 419] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 1979/ASVINA 25, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation..

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1979

का. आ. 584 (अ).—सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधि-  
नियम 8) के अधीन गठित बोर्ड, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31)  
की धारा 72 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन, 1 नवम्बर, 1966 को  
और उससे, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार समय समय पर जारी करे,  
उन क्षेत्रों में जिनमें यह उस तारीख से सुरुन्त पूर्व कार्यरत था, कार्य करता रहेगा जब तक  
कि उक्त बोर्ड की बाबत विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध न किया जाए ;

और उक्त धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, ऐसे किसी निदेश के अंतर्गत ऐसा  
कोई निदेश भी होगा कि उक्त बोर्ड को शासित करने वाली किसी विधि का, उस बोर्ड

को लागू होने के संबंध में, प्रभाव ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए होगा जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 72 की उपधारा (2), और (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती हैं कि उस बोर्ड को लागू होने के संबंध में, सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम 8) का प्रभाव, निम्नलिखित और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से होगा, अर्थात् :—

धारा 160 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड के निर्वाचन के संबंध में किसी निर्वाचन अपराध की बाबत, ‘आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन’ पद से, मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत हैं।” ।

[सं. एस-13016/6/79-एस. आर.]

एस. शान्ति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1979

**S.O. 584(E).**—Whereas under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with sub-section (3) thereof, the Board constituted under the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925) shall, on and from the 1st day of November, 1966, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may from time to time, be issued by the Central Government until other provision is made by law in respect of the said Board ;

And whereas under sub-section (2) of the said section 72, any such direction may include a direction that any law by which the said Board is governed shall, in its application to that Board, have effect, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the direction ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-sections (2) and (3) of the said section 72, the Central Government hereby directs that the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925), in its application to that Board, shall have effect as from the date of issue of this notification subject to the following further modifications, namely :—

To section 160 the following Explanation shall be added, namely,—

“Explanation.—For the purposes of this section, the expression “Commissioner, Gurdwara Elections”, shall, in relation to an electoral offence in connection with the election to the Board, mean the Chief Commissioner, Gurdwara Elections or any other officer specified by the Central Government in this behalf.”.

[No. S. 13016/6/79-SR]

S. SANTHI, Jt. Secy.